



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

## साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 37

नवंबर 25, 2022

संख्या 47

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

| (₹ करोड़)                               |          |          |          |          |         |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| मद                                      | 2021     | 2022     |          | घट - बढ़ |         |
|                                         | 19 नवंबर | 11 नवंबर | 18 नवंबर | सप्ताह   | वर्ष    |
|                                         | 1        | 2        | 3        | 4        | 5       |
| 1 जारी नोट                              | 2961044  | 3193519  | 3189227  | -4292    | 228183  |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 2961030  | 3193506  | 3189214  | -4292    | 228183  |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 13       | 13       | 13       | 0        | 0       |
| 2 जमा राशियां                           |          |          |          |          |         |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 100      | 101      | 100      | -1       | 0       |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               |          |          |          |          |         |
| 2.3 राज्य सरकारों                       | 42       | 42       | 42       | 0        | 0       |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 683604   | 784971   | 814570   | 29599    | 130967  |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 7150     | 7621     | 7350     | -271     | 200     |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 40808    | 47740    | 48010    | 270      | 7202    |
| 2.7 अन्य                                | 1330676  | 494949   | 472920   | -22029   | -857756 |
| 3 अन्य देयताएं                          | 1332117  | 1324925  | 1394822  | 69896    | 62705   |
| कुल देयताएं / आस्तियां                  | 6355541  | 5853869  | 5927042  | 73173    | -428499 |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 4304053  | 3925731  | 3985108  | 59377    | -318945 |
| 2 सोना                                  | 300065   | 320786   | 326887   | 6101     | 26823   |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 1545839  | 1416814  | 1417416  | 601      | -128424 |
| 4 ऋण और अग्रिम                          |          |          |          |          |         |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | -        | -        | -        | -        | -       |
| 4.2 राज्य सरकारों                       | 8631     | 3728     | 5683     | 1955     | -2948   |
| 4.3 नाबार्ड                             | 21976    | 4576     | 0        | -4576    | -21976  |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 101928   | 94649    | 97533    | 2884     | -4395   |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 0        | 35       | 35       | 0        | 35      |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | -        | -        | -        | -        | -       |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | -        | -        | -        | -        | -       |
| 4.8 अन्य                                | 61793    | 67262    | 74040    | 6778     | 12246   |
| 5 खरीदे और धुनाए गए बिल                 |          |          |          |          |         |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | -        | -        | -        | -        | -       |
| 5.2 खजाना                               | -        | -        | -        | -        | -       |
| 6 निवेश                                 | 2064     | 2064     | 2064     | 0        | 0       |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 9193     | 18224    | 18276    | 52       | 9084    |

\*डाटा अनंतिम है।

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार\*

| मद                                        | 18 नवंबर 2022 को |               | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                          |               |                |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                           | ₹ करोड़          | मिलि.अम. डॉलर | सप्ताह                     |               | मार्च 2022 की समाप्ति पर |               | वर्ष           |               |
|                                           |                  |               | ₹ करोड़                    | मिलि.अम. डॉलर | ₹ करोड़                  | मिलि.अम. डॉलर | ₹ करोड़        | मिलि.अम. डॉलर |
|                                           | 1                | 2             | 3                          | 4             | 5                        | 6             | 7              | 8             |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>4470990</b>   | <b>547252</b> | <b>69208</b>               | <b>2537</b>   | <b>-127828</b>           | <b>-60057</b> | <b>-286490</b> | <b>-93149</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 3956579          | 484288        | 57256                      | 1760          | -137986                  | -56436        | -320398        | -91424        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 326887           | 40011         | 6101                       | 315           | 4674                     | -2540         | 26823          | -380          |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 146291           | 17906         | 4425                       | 351           | 3239                     | -985          | 4321           | -1204         |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 41233            | 5047          | 1426                       | 111           | 2244                     | -96           | 2764           | -141          |

\*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

| मद                                                                                                               | 2022    |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                  | 5 नवंबर | 6 नवंबर | 7 नवंबर | 8 नवंबर | 9 नवंबर | 10 नवंबर | 11 नवंबर | 12 नवंबर | 13 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 16 नवंबर | 17 नवंबर | 18 नवंबर |
|                                                                                                                  | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       |
| 18 नवंबर, 2022 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं (सीआरआर) = ₹784725 करोड़ |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                     | 774515  | 773468  | 819001  | 805249  | 796896  | 795367   | 784971   | 781301   | 780408   | 763251   | 771568   | 767283   | 763708   | 814570   |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                                | 98.7    | 98.6    | 104.4   | 102.6   | 101.6   | 101.4    | 100.0    | 99.6     | 99.4     | 97.3     | 98.3     | 97.8     | 97.3     | 103.8    |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

| मद                                             | 4 नवंबर 2022<br>को बकाया | पखवाड़ा       | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                |               |                |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                |                          |               | वित्त वर्ष में अब तक      |                | वर्ष-दर-वर्ष  |                |
|                                                |                          |               | 2021-22                   | 2022-23        | 2021          | 2022           |
|                                                | 1                        | 2             | 3                         | 4              | 5             | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                          |               |                           |                |               |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 197353                   | 11163         | 10093                     | 6783           | 2774          | -8606          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 51330                    | -4626         | 12917                     | 13013          | -793          | -2466          |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 52992                    | -466          | 3153                      | 23230          | 4513          | 31996          |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                          |               |                           |                |               |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 17370068                 | 169142        | 933240                    | 904755         | 1643440       | 1323316        |
| 2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                          | 1.0           | 6.2                       | 5.5            | 11.4          | 8.2            |
| 2.1.1 मांग                                     | 2048817                  | 23626         | 111928                    | -23930         | 478099        | 75696          |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 15321252                 | 145516        | 821312                    | 928685         | 1165342       | 1247620        |
| 2.2 उधारियां                                   | 487749                   | -60333        | 13552                     | 213155         | -697          | 230172         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 712449                   | 663           | -21087                    | 71600          | 28866         | 76928          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>94857</b>             | <b>-50525</b> | <b>6711</b>               | <b>558</b>     | <b>-17477</b> | <b>-2129</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>918384</b>            | <b>7799</b>   | <b>134794</b>             | <b>149021</b>  | <b>231861</b> | <b>150149</b>  |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 116838                   | -321          | 7352                      | 30913          | 12583         | 18739          |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 801546                   | 8120          | 127443                    | 118109         | 219278        | 131410         |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                          |               |                           |                |               |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 189469                   | 8933          | 40294                     | 25229          | 25709         | 5880           |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 11896                    | -4438         | 5025                      | 4914           | 3904          | -3783          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 45639                    | 3483          | 7403                      | 9837           | 3149          | 21472          |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 58329                    | 1002          | -31                       | 21716          | -4996         | 31530          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>5081678</b>           | <b>30623</b>  | <b>223989</b>             | <b>352730</b>  | <b>209853</b> | <b>395162</b>  |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                          | 0.6           | 5.0                       | 7.5            | 4.7           | 8.4            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 5080849                  | 30674         | 223592                    | 352671         | 209989        | 395625         |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 828                      | -51           | 397                       | 59             | -137          | -463           |
| <b>7 बैंक ऋण*</b>                              | <b>12926105</b>          | <b>42432</b>  | <b>211580</b>             | <b>1034791</b> | <b>741819</b> | <b>1876840</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                          | 0.3           | 1.9                       | 8.7            | 7.1           | 17.0           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 38379                    | 12725         | 15612                     | -16631         | -6765         | -38487         |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                              | 12887726                 | 29707         | 195969                    | 1051422        | 748584        | 1915328        |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 12690631                 | 47136         | 207812                    | 1039294        | 693320        | 1858152        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 35308                    | -2127         | 2270                      | -747           | 8598          | 2507           |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 155041                   | -1906         | 3944                      | 830            | 32732         | 23214          |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 17214                    | -473          | -1045                     | -1943          | 2793          | -2135          |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 27911                    | -197          | -1401                     | -2643          | 4376          | -4898          |

\*3 दिसंबर 2021 से बैंक ऋण वृद्धि और सभी पखवाड़ों के संबंधित बदलाव को, चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा, पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के संबंध में समायोजित किया जाता है।

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                          | 2021      | 2022       |            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | 19 नवंबर  | 21 अक्टूबर | 28 अक्टूबर | 4 नवंबर   | 11 नवंबर  | 18 नवंबर  |
|                                                           | 1         | 2          | 3          | 4         | 5         | 6         |
| <b>अनुपात</b>                                             |           |            |            |           |           |           |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                                  | 4.00      | 4.50       | 4.50       | 4.50      | 4.50      | 4.50      |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                                    | 18.00     | 18.00      | 18.00      | 18.00     | 18.00     | 18.00     |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                       | 4.96      | 5.29       | ..         | 5.29      | ..        | ..        |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                         | 70.74     | 74.90      | ..         | 74.42     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                               | 31.95     | 134.90     | ..         | 114.37    | ..        | ..        |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                      | 29.05     | 29.37      | ..         | 29.26     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                            | 18.32     | 43.79      | ..         | 38.99     | ..        | ..        |
| <b>दरें</b>                                               |           |            |            |           |           |           |
| नीतिगत रेपो दर                                            | 4.00      | 5.90       | 5.90       | 5.90      | 5.90      | 5.90      |
| नियत रिवर्स रेपो दर                                       | 3.35      | 3.35       | 3.35       | 3.35      | 3.35      | 3.35      |
| स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*                            | ..        | 5.65       | 5.65       | 5.65      | 5.65      | 5.65      |
| सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                          | 4.25      | 6.15       | 6.15       | 6.15      | 6.15      | 6.15      |
| बैंक दर                                                   | 4.25      | 6.15       | 6.15       | 6.15      | 6.15      | 6.15      |
| आधार दर                                                   | 7.30/8.80 | 8.10/8.80  | 8.10/8.80  | 8.10/8.80 | 8.10/8.80 | 8.10/8.80 |
| एमसीएलआर (एक दिवसीय)                                      | 6.50/7.00 | 6.95/7.85  | 6.95/7.85  | 7.05/8.05 | 7.05/8.05 | 7.05/8.05 |
| सावधि जमा दर > 1 वर्ष                                     | 4.90/5.50 | 5.50/6.50  | 5.50/7.00  | 5.50/7.25 | 5.50/7.25 | 6.10/7.25 |
| बचत जमाराशि दर                                            | 2.70/3.00 | 2.70/3.00  | 2.70/3.00  | 2.70/3.00 | 2.70/3.00 | 2.70/3.00 |
| मांग मुद्रा दर (भारतकित औसत)                              | 3.26      | 6.14       | 6.16       | 5.98      | 5.88      | 5.84      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                         | 3.52      | 6.36       | 6.40       | 6.47      | 6.48      | 6.44      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 3.82      | 6.74       | 6.72       | 6.80      | 6.82      | 6.74      |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 4.10      | 6.94       | 6.92       | 6.95      | 6.98      | 6.88      |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)                  | 6.34      | 7.50       | 7.41       | 7.48      | 7.32      | 7.32      |
| <b>एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया</b>           |           |            |            |           |           |           |
| भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 74.16     | 82.86      | 82.41      | 82.53     | 80.65     | 81.70     |
| भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 83.92     | 80.93      | 82.14      | 80.72     | 82.47     | 84.71     |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह                    | 3.64      | 3.04       | 3.28       | 2.69      | 2.83      | 2.35      |
| 3-माह                                                     | 3.99      | 2.49       | 2.86       | 2.52      | 2.68      | 2.35      |
| 6-माह                                                     | 4.72      | 2.41       | 2.74       | 2.45      | 2.63      | 2.42      |

\*जैसे निर्यात संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अगस्त 2022 के अनुसार

@ 10 जुलाई 2018 से, फार्नेसियल बेचमार्कम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हासिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का विम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                                 | निम्न को बकाया  |                 | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |            |                      |            |               |            |                |             |                |            |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|                                                    | 2022            |                 | पखवाड़ा                    |            | वित्त वर्ष में अब तक |            |               |            | वर्ष-दर-वर्ष   |             |                |            |
|                                                    |                 |                 |                            |            | 2021-22              |            | 2022-23       |            | 2021           |             | 2022           |            |
|                                                    | 31 मार्च        | 4 नवंबर         | राशि                       | %          | राशि                 | %          | राशि          | %          | राशि           | %           | राशि           | %          |
|                                                    | 1               | 2               | 3                          | 4          | 5                    | 6          | 7             | 8          | 9              | 10          | 11             | 12         |
| <b>एम3</b>                                         | <b>20493729</b> | <b>21462188</b> | <b>163403</b>              | <b>0.8</b> | <b>1069109</b>       | <b>5.7</b> | <b>968459</b> | <b>4.7</b> | <b>1978833</b> | <b>11.0</b> | <b>1548501</b> | <b>7.8</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>                     |                 |                 |                            |            |                      |            |               |            |                |             |                |            |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 3035689         | 3083069         | -5698                      | -0.2       | 127498               | 4.6        | 47380         | 1.6        | 241639         | 9.2         | 203743         | 7.1        |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा राशि                    | 2212992         | 2189998         | 23243                      | 1.1        | 114921               | 5.8        | -22994        | -1.0       | 494205         | 30.6        | 79957          | 3.8        |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा राशि                  | 15186605        | 16118293        | 145030                     | 0.9        | 826160               | 5.9        | 931688        | 6.1        | 1236764        | 9.1         | 1241855        | 8.3        |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि            | 58444           | 70828           | 827                        | 1.2        | 531                  | 1.1        | 12384         | 21.2       | 6225           | 14.9        | 22946          | 47.9       |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                 |                 |                            |            |                      |            |               |            |                |             |                |            |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 6477629         | 6608773         | 164874                     | 2.6        | 319845               | 5.5        | 131144        | 2.0        | 454150         | 7.9         | 438554         | 7.1        |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 1450596         | 1226986         | 135438                     | 12.4       | 87120                |            | -223611       |            | 190459         |             | 40180          |            |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 5027033         | 5381787         | 29436                      | 0.5        | 232725               | 4.9        | 354754        | 7.1        | 263691         | 5.6         | 398373         | 8.0        |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 12616520        | 13656526        | 35820                      | 0.3        | 205393               | 1.8        | 1040006       | 8.2        | 794310         | 7.2         | 1894491        | 16.1       |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 16571           | 12678           | -6276                      |            | -6569                |            | -3892         |            | -12794         |             | 10538          |            |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 12599950        | 13643848        | 42096                      | 0.3        | 211962               | 1.8        | 1043898       | 8.3        | 807104         | 7.3         | 1883953        | 16.0       |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 4854063         | 4469565         | 34847                      | 0.8        | 396849               | 8.7        | -384498       | -7.9       | 474698         | 10.5        | -506131        | -10.2      |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 28013           | 29212           | 208                        | 0.7        | 528                  | 2.0        | 1199          | 4.3        | 901            | 3.4         | 1771           | 6.5        |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं         | 3482496         | 3301887         | 72347                      | 2.2        | -146494              | -4.5       | -180609       | -5.2       | -254774        | -7.5        | 280184         | 9.3        |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं          | 1308500         | 1266066         | 22472                      | 1.8        | -19058               | -1.4       | -42434        | -3.2       | -134001        | -9.1        | -71536         | -5.3       |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |                | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |            |                      |            |              |            |               |             |               |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                                  | 2022           |                | सप्ताह                     |            | वित्त वर्ष में अब तक |            |              |            | वर्ष-दर-वर्ष  |             |               |             |
|                                                                  |                |                |                            |            | 2021-22              |            | 2022-23      |            | 2021          |             | 2022          |             |
|                                                                  | 31 मार्च       | 18 नवंबर       | राशि                       | %          | राशि                 | %          | राशि         | %          | राशि          | %           | राशि          | %           |
|                                                                  | 1              | 2              | 3                          | 4          | 5                    | 6          | 7            | 8          | 9             | 10          | 11            | 12          |
| <b>आरक्षित मुद्रा</b>                                            | <b>4068887</b> | <b>4159065</b> | <b>25333</b>               | <b>0.6</b> | <b>167913</b>        | <b>4.7</b> | <b>90179</b> | <b>2.2</b> | <b>450820</b> | <b>13.6</b> | <b>391171</b> | <b>10.4</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                |                |                            |            |                      |            |              |            |               |             |               |             |
| 1.1 संचालन में करेंसी                                            | 3133716        | 3218425        | -4292                      | -0.1       | 134708               | 4.7        | 84709        | 2.7        | 217979        | 7.9         | 229954        | 7.7         |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा राशि                         | 876726         | 869931         | 29598                      | 3.5        | 32695                | 4.7        | -6796        | -0.8       | 226884        | 45.0        | 138369        | 18.9        |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि                          | 58444          | 70709          | 28                         | 0.0        | 511                  | 1.1        | 12265        | 21.0       | 5958          | 14.2        | 22848         | 47.7        |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                |                |                            |            |                      |            |              |            |               |             |               |             |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 1450596        | 1226047        | 119                        |            | 94278                |            | -224549      |            | 170017        |             | 32083         |             |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 1448972        | 1220407        | -1835                      |            | 89030                |            | -228566      |            | 172118        |             | 35031         |             |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | -543702        | -30859         | 25342                      |            | -342280              |            | 512843       |            | -194043       |             | 680779        |             |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | -560272        | -45520         | 25426                      |            | -338205              |            | 514752       |            | -186505       |             | 670752        |             |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 4442479        | 4316211        | 69690                      | 1.6        | 386634               | 9.2        | -126269      | -2.8       | 336910        | 7.9         | -269824       | -5.9        |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 28013          | 29212          |                            |            | 528                  | 2.0        | 1199         | 4.3        | 901           | 3.4         | 1771          | 6.5         |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता                            | 1308500        | 1381545        | 69818                      | 5.3        | -28752               | -2.1       | 73045        | 5.6        | -137036       | -9.4        | 53638         | 4.0         |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

| दिनांक        | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                        |                               |        |        | बाजार स्थिरीकरण योजना | ओएमओ   |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+)/अवशोषण (-)<br>(1+3+5+7+9-2-4-6-8) |
|---------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|
|               | रेपो                  | रिवर्स रेपो | परिवर्तनशील<br>रेपो दर | परिवर्तनशील<br>रिवर्स रेपो दर | एमएसएफ | एसडीएफ |                       | विक्रय | क्रय |                                                         |
|               |                       |             |                        |                               |        |        |                       |        |      |                                                         |
|               | 1                     | 2           | 3                      | 4                             | 5      | 6      | 7                     | 8      | 9    | 10                                                      |
| 14 नवंबर 2022 | -                     | -           | -                      | -                             | 2495   | 140412 | -                     | -      | -    | -137917                                                 |
| 15 नवंबर 2022 | -                     | -           | -                      | -                             | 245    | 151934 | -                     | -      | -    | -151689                                                 |
| 16 नवंबर 2022 | -                     | -           | -                      | -                             | 83     | 154901 | -                     | -      | -    | -154818                                                 |
| 17 नवंबर 2022 | -                     | -           | -                      | -                             | 109    | 168921 | -                     | -      | -    | -168812                                                 |
| 18 नवंबर 2022 | -                     | -           | -                      | 52065                         | 3250   | 91107  | -4399                 | -      | -    | -144321                                                 |
| 19 नवंबर 2022 | -                     | -           | -                      | -                             | 2664   | 17829  | -                     | -      | -    | -15165                                                  |
| 20 नवंबर 2022 | -                     | -           | -                      | -                             | 429    | 2668   | -                     | -      | -    | -2239                                                   |

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2021   |         | 2022   |         | वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                     | सितंबर | अक्टूबर | सितंबर | अक्टूबर | पिछले महीने की तुलना में          | मार्च-अंत की तुलना में | वर्ष-दर-वर्ष |
|                                                                     | 1      | 2       | 3      | 4       | 5                                 | 6                      | 7            |
| <b>1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)</b>                          | 163.2  | 165.5   | 175.3  | 176.7   | 0.8                               | 5.4                    | 6.8          |
| 1.1 ग्रामीण                                                         | 164.0  | 166.3   | 176.4  | 177.9   | 0.9                               | 5.5                    | 7.0          |
| 1.2 शहरी                                                            | 162.3  | 164.6   | 174.1  | 175.3   | 0.7                               | 5.3                    | 6.5          |
| <b>2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)</b> | 123.3  | 124.9   | 131.3  | ..      | ..                                | ..                     | ..           |
| <b>3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)</b>                            | 137.4  | 140.7   | 152.1  | 152.5   | 0.3                               | 2.4                    | 8.4          |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 157.7  | 163.0   | 176.2  | 181.0   | 2.7                               | 5.9                    | 11.0         |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                                   | 119.0  | 126.0   | 157.8  | 155.2   | - 1.6                             | 7.9                    | 23.2         |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 134.0  | 135.9   | 142.5  | 141.9   | - 0.4                             | - 0.3                  | 4.4          |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ करोड़) | पखवाड़े के दौरान       |                       |
|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                |                         | जारी राशि<br>(₹ करोड़) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                | 1                       | 2                      | 3                     |
| 4 नवंबर 2022   | 248613                  | 14378                  | 6.73 - 7.14           |
| 18 नवंबर 2022  | 257555                  | 25535                  | 6.64 - 7.28           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ करोड़) | पखवाड़े के दौरान       |                       |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                 |                         | जारी राशि<br>(₹ करोड़) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                 | 1                       | 2                      | 3                     |
| 31 अक्टूबर 2022 | 373332                  | 39745                  | 6.40 - 13.72          |
| 15 नवंबर 2022   | 381456                  | 55159                  | 6.21 - 13.78          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

| मद                       | समाप्त सप्ताह    |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | 19 नवंबर<br>2021 | 11 नवंबर<br>2022 | 18 नवंबर<br>2022 |
|                          | 1                | 2                | 3                |
| 1 मांग मुद्रा            | 11384            | 19813            | 19666            |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 5157             | 1332             | 6538             |
| 3 त्रिपक्षीय रेपो        | 744194           | 672207           | 791262           |
| 4 बाजार रेपो             | 424778           | 467576           | 555960           |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रेपो | 3888             | 1923             | 4480             |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

| 18 नवंबर<br>2022 को | प्रमुख धारक |                      |               | कुल    |
|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------|
|                     | बैंक        | प्राथमिक<br>व्यापारी | राज्य सरकारें |        |
|                     | 1           | 2                    | 3             | 4      |
| 91-दिवसीय           | 12702       | 23770                | 42731         | 174056 |
| 182-दिवसीय          | 67161       | 50857                | 29798         | 233901 |
| 364-दिवसीय          | 118414      | 179639               | 45693         | 473578 |
| सीएमबी              | -           | -                    | -             | -      |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि               |                                 |         | जुटाई गई निवल राशि              |                                 |         |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
|                  | 2022 - 23<br>(18 नवंबर 2022 तक) | 2021 - 22<br>(19 नवंबर 2021 तक) | 2021-22 | 2022 - 23<br>(18 नवंबर 2022 तक) | 2021 - 22<br>(19 नवंबर 2021 तक) | 2021-22 |
|                  | 1                               | 2                               | 3       | 4                               | 5                               | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 973000                          | 846357                          | 1127382 | 717229                          | 631800                          | 863103  |
| 2. राज्य सरकारें | 376333                          | 398121                          | 701626  | 245108                          | 296052                          | 492483  |

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbierbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री जी. वि. नथनएल, निदेशक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।